



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 1014 राँची, बुधवार, 11 दिसम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

10 दिसम्बर, 2019

संख्या-5/आरोप-1-48/2016-27280 (HRMS)-- श्री निरंजन कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-820/03, गृह जिला-भागलपुर), तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला के विरुद्ध कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1482, दिनांक 11.05.2016 के माध्यम से उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-9(i), दिनांक 23.09.2015 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के खिलाड़ियों को मिलने वाली खेल सामग्रियों की आपूर्ति एवं वितरण में भारी अनियमितता बरतने, बिना मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स एकेडमी को खेल सामग्रियाँ प्राप्त करने हेतु अधिकृत करना एवं सामग्रियों का वितरण खेल पदाधिकारी एवं विद्यालय के माध्यम से नहीं कराने, सम्पूर्ण जिले के प्रखण्ड स्तर के छात्रों के बीच खेल सामग्री वितरण करने के विभागीय प्रावधान के विपरीत कुल 207 छात्र/छात्राओं में से सिर्फ सिलम विद्यालय एवं स्पोर्ट्स एकेडमी, गुमला के 195 छात्र/छात्राओं का नाम शामिल करने, जिला खेल पदाधिकारी की अनुशंसा के विरुद्ध 163 छात्र/छात्राओं का नाम बिना मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स एकेडमी की अनुशंसा के आलोक में सूची में शामिल करने, छात्र/छात्राओं का संबंधित विद्यालय में नामांकित न होना एवं नामांकित छात्र/छात्राओं को किसी प्रकार के खेल सामग्रियों की आपूर्ति न कर उनके नाम वितरण दिखाकर उनका जाली हस्ताक्षर अंकित करने एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 में खेल सामग्री आपूर्ति के

क्रम में 3,37,973/- रुपये की निकासी एवं गबन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4647, दिनांक 02.06.2016 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-370, दिनांक 12.02.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा कहा गया कि इनके द्वारा किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं की गई। श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2243, दिनांक 03.04.2018 द्वारा कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। इस संबंध में उपायुक्त, गुमला के ज्ञापक-1194(ii)/स्था०, दिनांक 24.10.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री कुमार के स्पष्टीकरण को योग्य प्रतिवेदित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रकृति के होने के कारण विभागीय संकल्प सं०-1824(HRMS), दिनांक 18.04.2019 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी श्री झा के पत्रांक-165, दिनांक 05.07.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया।

अतः संचालन पदाधिकारी के मंतव्य सहमत होते हुए श्री कुमार को आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	NIRANJAN KUMAR BHR/BAS/3757	श्री निरंजन कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-820/03, गृह जिला-भागलपुर), तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
